

## प्रेस नोट/गुड वर्क

थाना अमरिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त लवप्रीत को एक अदद नाजायज रिवाल्वर वेवले मार्क- 06 मय 05 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र की बरामदगी एवं वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल निर्देशन एवं थानाध्यक्ष अमरिया पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2021 को थाना अमरिया पुलिस टीम व0उ0नि0 अमित कुमार पाल मय पुलिस बल के चैकिंग के दौरान उत्तराखण्ड बार्डर पर नहर पुलिया वहद ग्राम फुलैइया के पास एक अभियुक्त लवप्रीत सिंह पुत्र दिलबाग सिंह नि0 ग्राम हल्दुआ थाना सितारगंज उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड जो मु0अ0स0 47/21 धारा 147/148/149/457/354बी /323/504/506/279 भादवि थाना अमरिया जनपद पीलीभीत का वाँछित अभियुक्त भी है, के पास से एक अदद नाजायज रिवाल्वर (फैक्ट्री मेड) वेवले मार्क -06 मय 05 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी है।

**पूछताछ** - पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त लवप्रीत ने बताया कि एक वर्ष पहले हल्द्वानी जेल में मेरी मुलाकात गुरतेज नाम के व्यक्ति से हुयी थी जेल से छूटने के बाद यह अस्लाह में गुरतेज से ले लिया था लेने के बाद अच्छा अस्लाह देखकर मेरी नीयत खराब हो गयी, उसके बाद मैंने उसका अस्लाह उसको वापस नहीं किया था ।

### **अभियुक्त का नाम-**

लवप्रीत सिंह पुत्र दिलबाग सिंह नि0 ग्राम हलदुआ थाना सितारगंज उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड

## बरामदगी –

एक अदद नाजायज रिवाल्वर (फैक्ट्री मेड) वेवले मार्क -06 मय 05 अदद जिन्दा कारतूस

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 129/18 धारा 323/504 भादवि व 3(1) x एस सी एसटी एक्ट थाना सितारगंज उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड )
2. मु0अ0स0 337/18 धारा 323/504/506/427 भादवि थाना सितारगंज उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड )
3. मु0अ0स0 132/19 धारा 147/332/353/504 भादवि थाना सितारगंज उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड )
4. मु0अ0स0 149/20 धारा 147/148/149/307/452/323/506/188/269 भादवि थाना सितारगंज उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)
5. मु0अ0स0 47/21 धारा 147/148/149/457/354 बी /323/504/506/279 भादवि थाना अमरिया जनपद पीलीभीत
6. मु0अ0स0 81/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

### पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह थाना अमरिया जनपद पीलीभीत
2. व0उ0नि0 अमित कुमार पाल थाना अमरिया जनपद पीलीभीत
3. का0 1231 राहुल कुमार थाना अमरिया जनपद पीलीभीत
4. का0 981 टिकू चौधरी थाना अमरिया जनपद पीलीभीत
5. का0 1441 शिवम बालियान थाना अमरिया जनपद पीलीभीत
6. का0 927 सुनील कुमार थाना अमरिया जनपद पीलीभीत

अभियुक्त लवप्रीत उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।